



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 2004—जून 4, 2004 (ज्यैष्ठ 8, 1926)  
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 2004—JUNE 4, 2004 (JYAISTHA 8, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

#### संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2004

सं. ए. 19014/3/2004=प्रसा.1==राष्ट्रपति, डा. ए. एस. खान, आई.ओ.एफ.एफ. (91) को रु. 12,000-375=16,500/= के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 2-04-2004 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनन्दम  
अवर सचिव (प्रशा.)  
संघ लोक सेवा आयोग

घोषणा पर इनके नाम को सम्बुद्ध उल्लिखित तारीख से कार्यालय अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के फ्रेड में नियुक्त किया है।==

क्रम नाम	कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री	
1. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	22.03.2004 (पूर्वाह्न)
2. कोराव राम	12.04.2004 (पूर्वाह्न)
3. ज्ञान चंद गुप्ता	01.04.2004 (पूर्वाह्न)
4. बाली राम	22.03.2004 (पूर्वाह्न)

#### केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मई 2004

सं. डीपी/पर्स.1/2004/1787/11/1/2004--निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अपराध सहायकों को

एस.डी. वैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्यिक)  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय  
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)  
नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मई 2004

सं. 18/33/97-प्रशा. नि. श्री एस. शेरगिल, सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-1/जी. आर. सी. बल, नई दिल्ली की केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, चंडीगढ़ में पुलिस उपप्रमुख के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.06.2003 (अपराह) से 14.06.2004 तक आगामी एक वर्ष के लिए (अर्थात् पांचवें वर्ष के लिए) अथवा नए पदधारी द्वारा पदभार ग्रहण करने, इनमें से जो भी पहले हो, तक विद्यमान निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बढ़ाई जाती है। वे पांचवें वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्ति बना पाने की हकदार नहीं होंगे। यह गृह मंत्रालय के दिनांक 04.09.2003 के डायरी सं. 1355/पी.एम.-II/03 के अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 मई 2004

सं. ओ. दो. 3646/04-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. आकाश चर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 27.04.2004 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 92 बटालियन के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस डेप्ट. महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  
नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 मई 2004

सं. ई-15014/1/2003/कार्मिक-II/155--राष्ट्रपति, श्री आर. वी. सिंह, सहायक कमान्डेन्ट (कार्य), के.ओ.सुब इकाई, ओ.एन.जी.सी. मजिरी की परीक्षा अवधि/बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के दौरान उनके अर्हतापत्रजनक कार्य निष्पादन के कारण 26.04.2004 के अवकाश से निरीक्षक (कार्य.) के रैंक में प्रत्यावर्तित करते हैं। निरीक्षक (कार्य.) के रूप में प्रत्यावर्तन होने पर उन्हें के.ओ.सुब इकाई, सी.एस.एल. जोकारो में तैनात किया जाता है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 11 मई 2004

सं. ई-16013/आईजी/04/कार्मिक-II/1005--के.ओ.सुब में प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिरीक्षक रैंक में नियुक्ति के फलस्वरूप श्री एम. एस.

बाली, भापुसे (उ.प्र. : 76), ने के.ओ.सुब मुख्यालय में 5.5.2004 (पूर्वाह) को रिपोर्ट किया और तदनुसार महानिरीक्षक (उ.से.) साकेत, नई दिल्ली का पदभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 13 मई 2004

सं. ई-31013(3)/4/2000/कार्मिक-II/1025--श्री जे. पी. एस. भंडारी, स.उ.नि. (अब सेवा निवृत्त कमान्डेन्ट) द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 427/1984 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 4.10.1999 के निर्णय आदेश के अनुपालन में, उन्हें दिनांक 1.8.2001 की समसंख्यक अधिसूचना संख्या (356) और दिनांक 11.9.2001 की अधिसूचना संख्या (1872) के तहत क्रमशः 27.11.89 को सहायक कमान्डेन्ट/कार्य और 8.9.98 को उप कमान्डेन्ट के रैंक में इस शर्त के साथ सैद्धांतिक पदोन्नतियां दी गई थीं कि वह उक्त पदों पर उनकी सैद्धांतिक पदोन्नतियों के कारण वेतन एवं भत्तों के बकाए के हकदार नहीं हैं।

2. अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री जे. पी. एस. भंडारी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका संख्या 12/2003 में दिए गए दिनांक 19.3.2004 के अपने निर्णय आदेश के द्वारा दिनांक 4.10.1999 के निर्णय आदेश के अनुपालन का आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नतियों की अवधि के लिए पिछला वेतन दिया जाए। उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नतियों की अवधि के लिए पिछले बकायों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री जे. पी. एस. भंडारी, कमान्डेन्ट (अब सेवा निवृत्त) सैद्धांतिक पदोन्नतियों के लिए 27.11.89 से 7.9.1998 तक सहायक कमान्डेन्ट/कार्य के रैंक में और 8.9.1998 से 29.8.2001 तक उप कमान्डेन्ट के रैंक में वेतन एवं भत्तों के बकाए के हकदार हैं।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

विश्व मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 19 फरवरी 2004

सं. 1010/स्था.-18-1--श्री एस. डी. आवारे, निरीक्षक, डी. एस. ओ. को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में सुरक्षा अधिकारी के पद पर, वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 15.12.2003 से 31.03.2004 तक या को. ओ. सु. ब. के सूखे चरण के अधिष्ठापन/प्रवेश तक, इनमें जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

प्रकाश नाशिकण  
महाप्रबंधक

दिनांक 20 मार्च 2004

सं. 1127/स्थापना-18-1--निम्नलिखित निरीक्षक नियंत्रण को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 10 मार्च, 2004 से वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में पदोन्नत किया जाता है :--

1. श्री पी. जी. घागरे
2. श्री एस. जी. बागुल

उक्त तदर्थ पदोन्नति दिनांक 10 मार्च, 2004 से एक वर्ष की अवधि तक या पद नियमित आधार पर भरे जाने तक, इसमें जो पहले हो, तक की होगी।

प्रकाश नारायण  
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

[कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल]

कोलकाता-700001, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/12--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वेतनमान डिवीजन प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

नाम

अजित कुमार सरकार

उपरोक्त अधिकारियों प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्तर एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

पी. के. दास  
उपमहालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार का कार्यालय, झारखंड  
(स्थानीय लेखा शाखा)

रांची, दिनांक 6 मई 2004

मं. एल.ए. एडमिन। इस्ट। प्रो. स.ले.प.अ. से ले.प.अ.-14/  
2003-04 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखंड ने स्थानीय  
लेखा परीक्षा शाखा के श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा को दिनांक 05.05.2004

(पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है।

मनीष कुमार  
स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखंड

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500001, दिनांक 13 मई 2004

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने श्री राम राजाराम, श्रीमती इन्दिरा जयसिंहा एवं श्रीमती जी. शारदा अनुभाग अधिकारियों को रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर सहायक लेखा अधिकारी के रूप में दिनांक 10.05.2004 (पूर्वाह्न) के प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

गीता मेनन  
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने सर्वश्री ए. विवेकानन्दराव, एस. चक्रपानि, वी. एस. सूर्यनारायणा एवं के. राममूर्ति सहायक लेखा अधिकारियों को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर लेखा अधिकारी के रूप में क्रमशः दिनांक 30.04.2004, 30.04.2004, 10.05.2004 एवं 07.05.2004 (पूर्वाह्न) के प्रभावी तिथियों से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

गीता मेनन  
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2004

सं. ए-19018/496/80-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की अग्रु प्राप्त कर लेने पर श्री बाई. एस. भटनागर, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 13 मई 2004

सं. ए-19018/401/79-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति भारत स्थित यूनिटो कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर, श्री डी. बंधोपाध्याय, उप निदेशक (धातुकर्म) को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन में निदेशक (धातुकर्म) के पद पर दिनांक 27.04.2004 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. बी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1527/98-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुम्बई में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग), श्री एस. एस. गुराव को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 23.04.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. बी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय  
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 18 मई 2004

सं. 1209एसपी/ए-32013/2-(एस.ओ.)/2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, श्री आर. के. पांडे, भण्डार अधीक्षक (तकनीकी) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भण्डार अधिकारी के रूप में पदोन्नति पर, इसी विभाग में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 16.12.2003 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते उपमहानिदेशक (कार्मिक)  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 6 मई 2004

सं. ए-19011/363/2004-स्था. ए.पी.पी.--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने पर श्री बी. पंचपकेसन, व्यक्तिगत सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, से दिनांक 1.5.2004 के पूर्वाह्न में कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. ए-19011/413/94-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. एस. एस. भाके, उप खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 22.04.2004 (अपराह्न) से खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद पर पदोन्नति की जाती है।

बी. सूद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

दिनांक 6 मई 2004

सं. ए-19011/581/2003-स्था. ए.पी.पी.--श्री कृष्ण कुमार, सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आ.), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
भारतीय खान ब्यूरो

सं. ए-19011/259/2003-स्था. ए.पी.पी.--श्री आर. एल. भाटिया, खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
भारतीय खान ब्यूरो

सं. ए-19012/221/2003-स्था. ए.पी.पी.--श्री आई. सी. झामनानी, सहायक खान अभियंता, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद  
सहायक प्रशासन अधिकारी  
भारतीय खान ब्यूरो

भारत मौसम विज्ञान विभाग  
(कार्यालय महानिदेशक मौसम विज्ञान)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 मई 2004

सं. ए-32013(मौ.वि.श्रे.-1)/17/99-स्था.-1--राष्ट्रपति ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 (वैज्ञानिक "ग") को उसी विभाग में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से

आगामी आदेशों तक स्थानापन्न निदेशक (वैज्ञानिक "घ") के रूप में नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	नाम	तारीख जिससे निदेशक के रूप में नियुक्त हुए
1	2	3
1.	श्री आर. के. दासगुप्ता	16.2.2004
2.	श्रीमती एस. एस. बसारकर	11.2.2004
3.	श्री एस. एस. मन्डल	11.2.2004
4.	डॉ. हरी सिंह	11.2.2004
5.	डॉ. जी. सी. बासु	11.2.2004
6.	श्री देवेन्द्र प्रधान	18.2.2004
7.	डॉ. वी. राजेश्वरा राव	10.2.2004 (अपराह)
8.	श्री एस. के. जैन	11.2.2004
9.	श्री एस. सी. भान	11.2.2004
10.	श्री जी. के. मोहान्ती	11.3.2004
11.	श्री जी. सी. देबनाथ	11.2.2004
12.	श्री जे. पी. गुप्ता	11.2.2004
13.	श्री बी. पी. यादव	11.2.2004
14.	श्री जयन्त सरकार	11.2.2004
15.	डॉ. नवान्सु चट्टोपाध्याय	11.2.2004
16.	श्री के. सन्तोष	23.2.2004
17.	श्री स्योमेन्दु सेनगुप्ता	11.2.2004
18.	श्री ए. के. श्रीवास्तव	11.2.2004
19.	डॉ. पुलक गुहाथकुरता	11.2.2004
20.	श्री सोमनाथ दत्ता	11.2.2004
21.	डॉ. सन्जीव बन्धोपाध्याय	11.2.2004
22.	श्री एम. मोहापात्रा	23.2.2004
23.	डॉ. श्रीमती मेघा खोले विनायक	11.2.2004
24.	डॉ. आर. के. जेनामनी	11.2.2004
25.	डॉ. अनुपम कश्यप	11.2.2004
26.	कुमारी रंजु मदान	11.2.2004
27.	श्री के. सी. साई कृष्णन	11.2.2004
28.	श्री के. एस. होसालिकर	26.2.2004
29.	डॉ. डी. एस. पाई	11.2.2004
30.	श्री वाई. के. रेड्डी	16.2.2004

1	2	3
31.	श्री देवेन्द्र सिंह	10.2.2004 (अपराह)
32.	श्री एस. बालाचन्द्रन	11.2.2004
33.	श्री जी. सुरेश	11.2.2004
34.	श्री के. एन. मोहन	11.2.2004
35.	श्री मानीक चन्द्र	11.2.2004

ए. जे. कुरियन  
मौ.वि. के उपमहानिदेशक  
(प्रशासन एवं भण्डार)  
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 11 मई 2004

सं. पीडी/12(2)/2003-आर-III/637--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री कमलाकर कृष्णा डांगे, प्रवर श्रेणी लिपिक, भापअ केन्द्र को दिनांक 29 मार्च, 2004 (पूर्वाह) से 30 अप्रैल, 2004 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 21/9(1)/2003-सीसीएस/16--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्रीमती के. पी. सरस्वती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 06.10.2003 (पूर्वाह) से दिनांक 07.11.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी केन्द्र में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 18/1(2)/2003-ईआर/1781--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को भावी आदेश होने तक प्रत्येक व्यक्ति के सामने उल्लिखित तारीख से

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	वेतनमान
1.	श्री एम. सैथिल कुमार	29.03.2004 (पूर्वाह)	8000-275-13500
2.	कु. आरती आर. कुलकर्णी	31.03.2004 (पूर्वाह)	8000-275-13500
3.	कु. दीपाली चौधरी	31.03.2004 (पूर्वाह)	8000-275-13500
4.	श्री प्रवीण जे. पाटिल	01.04.2004 (पूर्वाह)	8000-275-13500

डी. सुरेन्द्र  
अवर सचिव

#### क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 6 मई 2004

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/1822--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई के क्रय सहायक श्री जी. के. केलुस्कर को इसी निदेशालय में दिनांक 28.04.2004 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/1823--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई के क्रय सहायक श्री बी. आर. वालके को इसी निदेशालय में दिनांक

28.04.2004 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/1824--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई की क्रय सहायक श्रीमती महानंदा पी. सूर्यवंशी को इसी निदेशालय में दिनांक 28.04.2004 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/1825--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई की क्रय सहायक श्रीमती पी. पी. रोडे को इसी निदेशालय में दिनांक 28.04.2004 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/1826--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने वरिष्ठ भंडारी, श्री आर. एम. भिंगे को इसी निदेशालय में दिनांक 28.04.2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश होने तक, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

टी. किशन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

#### (भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 12 मई 2004

सं. भापाबो/भर्ती/26(2)/2004/352--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के भारी पानी संयंत्रों के वर्ग 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे दी गई तिथियों से प्रभावी रूप में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	इकाई	ग्रेड जिसमें स्थायी रूप में नियुक्त किए गए	स्थायी नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	पुश्वी मुनिशंकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
2.	थटवर्ती रविकुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

1	2	3	4	5	6
3.	यारा गांधी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
4.	भास्करन सुधीर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
5.	मयंक गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
6.	सुरेन्द्र प्रताप	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
7.	रोहित देशमुख	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
8.	संतोष वाघमोडे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
9.	सर्वजीत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
10.	अमित सिवारी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगूरू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
11.	कुराकुला भूमाना	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	तूतीकोरीन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
12.	पूरण माल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	तूतीकोरीन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
13.	डॉ. मिलिंद एम. लंकेस्वर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	चट्टीदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
14.	करुमुरी किरण बाबा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	चट्टीदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
15.	मोनू आर. मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	चट्टीदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
16.	मीसमी भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	चट्टीदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003
17.	रहबर हुसैन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोडा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2003

आर. के. सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

(नाभिकीय ईंधन समिंत्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 11 मई 2004

सं. नाईस/प्रशा./पेशन/का.कू.-0293--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, नाभिकीय ईंधन समिंत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री जी. कृष्ण राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई', (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेशन/का.कू.-4992--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, नाभिकीय ईंधन समिंत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री बी. जी. कल्याणकर, उच्च मुख्य कार्यपालक (प्रशा.), (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेशन/का.कू.-2230--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, नाभिकीय ईंधन समिंत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री ए. मुरली कृष्ण राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ', (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेशन/का.कू.-1381--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, नाभिकीय ईंधन समिंत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री बी. पी. पटनायक, वैज्ञानिक अधिकारी 'सी', (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

(इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र)

कल्पावकम-603102, दिनांक 11 मई 2004

सं. इगांअके/ए-11013/1/2003-भर्ती/182--राष्ट्रपति, इस केन्द्र के निम्नलिखित वर्ग "ए" के वैज्ञानिक अधिकारियों को इस केन्द्र में 1 अक्टूबर, 2002 से मूल क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री आशिष जैन	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
2.	श्री पल्लव चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"
3.	कुमारी शान्ति, एम. एम.	वैज्ञानिक अधिकारी "सी"

के. अन्नाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

-----

सं. इगांअके/ए-11013/1/2003-भर्ती/183--राष्ट्रपति, इस केन्द्र के निम्नलिखित वर्ग "ए" के वैज्ञानिक अधिकारियों को इस केन्द्र में 1 अक्टूबर, 2003 से मूल क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री रुक्मिणी डेविड, जे. डब्ल्यू.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
2.	कुमारी राधा, ई.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
3.	कुमारी अम्बलक्ष्मी, ओ.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
4.	श्री संजय कुमारी, एन. आर.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
5.	कुमारी पुंयुक्ता, ए.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
6.	श्रीमती प्रीता, आर.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
7.	श्री वैकटचलपति, जी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
8.	श्री महेश कुमार पट्टनकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
9.	श्री सुजीव सेन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
10.	श्री भगवत सिंह, ए.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
11.	श्री किशोर, जी.जी.एस.एस.आर.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
12.	डॉ. सुन्दरचेल, जी.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी
13.	डॉ. वैकट श्रीनिवास, सी.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी
14.	कुमारी मेनका, एम.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
15.	श्री हेमानाथ, एम. जी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
16.	कुमारी विजु, डी. जी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
17.	श्री सुजिता, डी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
18.	श्री रामदास, डी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
19.	श्री विशाल डी. चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी

के. अन्नाहम  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं. ए-12025/3/98-स्था.-I(आरूप-IV)--संव लोक सेवा आयोग की शिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति जी, श्री मनोज कुमार जाजवेजी को नागर विमानन विभाग में दिनांक 27 फरवरी, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में उड़ानयोग्यता अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटरिया  
उप निदेशक प्रशासन  
कुछे महानिदेशक नागर विमानन

-----

दिनांक 21 अप्रैल 2004

सं. ए-32013/4/2003-स्था.-I--राष्ट्रपति जी, श्री एस. डी. उन्नेनी को नागर विमानन विभाग में चरित्व वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर



10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में, 15 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर सहर्ष पदोन्नत व नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया  
उप निदेशक प्रशासन  
कृते महानिदेशक नागर विमानन

दिनांक 22 अप्रैल 2004

सं. ए-12025/3/98-स्था.-I(वी.-IV)--राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्री सलीम पशा को नागर विमानन विभाग में उड़नयोग्यता अधिकारी के पद पर स्थानापन्न क्षमता में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में, 12 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया  
उपनिदेशक प्रशासन  
कृते महानिदेशक नागर विमानन

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. आई. होटल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2004

सं. 560/55/52063/OG2/445/1262--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. आई. होटल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वामदा सिक्थोरिटिज़ लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं. आर.ओ.सी./560(3)/18191/107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वामदा सिक्थोरिटिज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया

2-86 GI/2004

तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिटीजन्स बेनीफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 12 मई 2004

सं. 42658/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिटीजन्स बेनीफिट फण्ड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वाम इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 22662/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वाम इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नील फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 24576/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नील फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम शक्ति स्टॉक एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 39008/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओम शक्ति स्टॉक एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री वेणुगोपाल स्वामी कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 42336/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स श्री वेणुगोपाल स्वामी कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंजीन इंटरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 42746/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंजीन इंटरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 17th May 2004

No. 44/2000/SCA/Genl.—In partial modification of Notification of even number dated April 27, 2004 notifying the composition and sitting of the Division Bench as Vacation Judges during the Summer Vacation of the Supreme Court from Monday, May 10 to Sunday, July 4, 2004 (both days inclusive), it is hereby notified that during the first half of the vacation from May 17 to May 20, 2004, Hon'ble the Chief Justice of India has nominated the following Division Bench as Vacation Judges for hearing urgent cases:

For the period from May 17 to May 20, 2004 Hon'ble Mrs. Justice Ruma Pal and Hon'ble Mr. Justice B.M. Dharmadhikari

The rest of the aforesaid Notification dated April 27, 2004 remains unchanged.

R.C. GANDHI  
Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 2nd April 2004

No. A-19014/03/2004-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. A.S. Khan, IOFS (91), as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on Central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 02nd April 2004 or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 06 May 2004

No. DP/PERS.I/2004/1787/11/1/2004—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint the following Crime Assistant, Central Bureau of Investigation to the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the dates as mentioned against each—

Sl No.	Name	Date of appointment as OS.
1.	S/Shri Rajendra Prasad Gupta	22.03.2004 (FN)
2.	Keshav Ram	12.04.2004 (FN)
3.	Gain Chand Gupta	01.04.2004 (FN)
4.	Bali Ram	22.03.2004 (FN)

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## (BUREAU OF POLICE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 14th May 2004

No. 18/33/97-Admn.II.—The period of deputation of Shri T.S. Shergil, A.CIO-I/G of Intelligence Bureau, New Delhi on the post of Deputy Superintendent of Police in the CDTs, Chandigarh is extended for a further period of one year (i.e. 5th year) with effect from 14.06.2003 (AN) to 14.06.2004 or till the time a new incumbent joins duty whichever is earlier on the existing terms and conditions. He will not be entitled to draw any deputation allowance during the 5th year of his deputation period. This issues with the approval of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 1355/PM-II/03 dated 4.9.2003 and concurrence of the Union Public Service Commission.

A.K. SOOD  
Asstt. Dir. (Admn.)

## (DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 07th May 2004

No. O.II-3646/04-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Akash Vardha as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 27.04.2004 till further order. He is posted to 92 BN, CRPF.

J.N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.I)

## (DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110003, the 07 May 2004

No. E-15014/1/2003/Pers. II/155—The President is pleased to revert Shri R.P. Singh, Assistant Commandant (Exe) of CISF Unit, ONGC Nazira to the rank of Inspector (Exe) with effect from 26.04.2004 (Afternoon) due to his unsatisfactory performance during the period of probation/extended period of probation. He is posted to CISF Unit, BSL Bokaro on reversion as Inspector (Exe).

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

The 11th May 2004

No. E-16013/1/IG/04/Pers.II/1005—On appointment as Inspector General in Central Industrial Security Force on deputation basis, Shri M.S. Bhat, IPS (UP-76) reported at CISF HQs, New Delhi on 05.05.2004 (FN) and assumed the charge of the post of Inspector General (Northern Sector), Saket, New Delhi accordingly.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

The 13th May 2004

No. E-31013(3)/4/2000/Pers.II/1025—In compliance of Delhi High Court judgment order dated 04.10.1999 in CWP No. 427/1984 filed by Shri J.P.S. Bhandari, ASI (now Commandant retired), he was given notional date of promotions in the rank of Assistant Commandant (Exe) on 27.11.1989 and Deputy Commandant on 08.09.1998 respectively vide Notifications of even number (356) dated 01.08.2001 and number (1872) dated 11.09.2001 with stipulation that he was not entitled to arrears of pay and allowances due to his notional promotions to the said posts.

2. Now, the Delhi High Court vide its judgement order dated 19.03.2004 passed in Contempt Petition No. 12/2003 filed by Shri J.P.S. Bhandari, has directed to comply with the judgement order dated 04.10.1999 by giving him the back the wages for the period of notional promotions. It has been decided to pay him the back wages for the period of notional promotions.

3. Therefore, in partial modification of aforesaid Notifications, Shri J.P.S. Bhandari, Commandant (now retired) is entitled to arrears of pay and allowances in the rank of AC/ (Exe) from 27.11.1989 to 07.09.1998 and DC from 08.09.1998 to 29.08.2001 due to his notional promotions.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

#### INDIA SECURITY PRESS

Nashik Road, the 19th February 2004

No. 1010/EST-18-1—Shri S.D. Aware, Inspector (D.S.O), ISP is promoted to the post of Security Officer in India Security Press, on ad-hoc basis, from 15.12.2003 to 31.03.2004 or till induction of 2nd Phase of C.I.S.F. whichever is earlier, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-

PRAKASH NARAYAN  
General Manager

The 20th March 2004

No. 1127/EST-18-1—The following Inspectors Control are promoted to the post of Deputy Control Officer on adhoc basis w.e.f. 10.03.2004, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-

1. Shri P.G. Ghagare
2. Shri. S.G. Bagul

The above adhoc promotion is for a period of one year from 10.03.2004 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier.

PRAKASH NARAYAN  
General Manager

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 30th April 2004

No. WM-I/Estt/12—Under the orders of the Pr. A.G. (A&E), W.B., the following Divisional Accounts Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Senior Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

1. Ajit Kumar Sarkar

The above named officer may submit his options under FR 22(I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A.O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A/cs).

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),  
JHARKHAND (LOCAL AUDIT WING)

Ranchi, the 06th May 2004

No. L.A./Admn./Estt./Promo.AO/14 of 2004-05—The Accountant General (Audit) Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote Shri Girish Chandra Mishra of Local Audit Wing to officiate as Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from 05-05-2004 (F/N).

MANISH KUMAR  
Examiner of Local Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 13th May 2004

The Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Section Officers to officiate as Asstt. Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.A.O.
1.	Sri M. Raja Rao	10.05.2004 (FN)
2.	Smt. Indira Jaisimha	10.05.2004 (FN)
3.	Smt. G. Sarada	10.05.2004 (FN)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the

writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

**GEETA MENON**  
Sr. Dy. Accountant General(Admn.)

The Accountant General (A&E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Sri A. Vivekananda Rao	30.04.2004 (FN)
2.	Sri S. Chakrapani	30.04.2004 (FN)
3.	Sri V.S. Suryanarayana	10.05.2004 (FN)
4.	Sri K. Rama Murthy	07.05.2004 (FN)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

**GEETA MENON**  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES**  
**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER**

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 12th May 2004

No. A-19018/496/80-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Shri Y.S. Bhatnagar, Deputy Director (Chemical), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.04.2004.

**S.V.N. PILLAI**  
Dy. Director (Admn.)

The 13th May 2004

No. A-19018/401/79-Admn (G).—The President is pleased to appoint Shri D. Bandyopadhyay, Deputy Director (Metallurgy) on deputation with UNIDO in India as Director (Metallurgy) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Small Industries Service Institute, Solan with effect from the afternoon of 27.04.2004 until further orders.

**S.V.N. PILLAI**  
Dy. Director (Admn.)

No. A-19018/1527/98-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri S.S. Gurao, Assistant Director (Grade-II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Mumbai as Assistant Director (Grade I) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 in the same Institute with effect from the forenoon of 23.04.2004 until further orders.

**S.V.N. PILLAI**  
Dy. Director (Admn.)

**KHAN MANTRALAYA**  
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 18th May 2004

No. 12095P/A-32013(SO)/2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Shri R. K. Pandre, Stores Supdt. (Tech), Geological Survey of India on promotion as Stores Officer on pay according to rules in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the same Department on regular basis with effect from 16-12-2003 (AN) until further orders.

**S. K. SINHA**  
Senior Administrative Officer  
for Deputy Director General (P)  
Geological Survey of India

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 06th May 2004

No. A-19011/363/2004-Estt. App.—On acceptance of Voluntary Retirement Shri B. Panchapakesan, Private Secretary, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the forenoon of 1.05.2004 (FN).

**S.K. BATAV**  
Sr. Admn. Officer  
Indian Bureau of Mines

Nagpur, the 30th April 2004

No. A-19011/413/94-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Dr. S.S. Bhake, Deputy Mineral Economist (Int.) has been promoted to the post of Mineral Economist (Int.) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 22.04.2004 (AN).

**B. SOOD**  
Asstt. Admn. Officer  
for Controller General  
Indian Bureau of Mines

The 06th May 2004

No. A-19011/581/2003-Estt.APP—Shri Krishna Kumar, Asstt. Mineral Economist (I), Indian Bureau of Mines, Nagpur

has relinquished charge on the afternoon of 30th April 2004 on attaining the age of superannuation.

**B. SOOD**  
Asstt. Admn. Officer  
Indian Bureau of Mines

No. A-19011/259/2003-Estt. App—Shri R.L. Bhatia, Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 30th April 2004 on attaining the age of Superannuation.

**B. SOOD**  
Asstt. Admn. Officer  
Indian Bureau of Mines

No. A-19012/221/2003-Estt. APP—Shri I.C. Jhamnani, Asstt. Mining Engineer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the After Noon of 30th April 2004 on attaining the age of Superannuation.

**B. SOOD**  
Asstt. Admn. Officer  
Indian Bureau of Mines

#### INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

(O/o THE DIRECTOR GENERAL OF  
METEOROLOGY)

New Delhi-110003, the 14th May 2004

No. A32013(DIR)/17/02-E.I.—The President is pleased to appoint the undermentioned Meteorologist Grade I (Scientist C) of India Meteorological Department as Director (Scientist D) (scale Rs. 12000-16500) in an officiating capacity in the same Department from the dates indicated against their names below. The promotions are until further orders :—

S.No.	Name	Date of from which appointed as Director
1	2	3
1	Sh. R.K. Dasgupta	16.02.2004
2	Smt. S.S. Basarkar	11.02.2004
3	Sh. S.S. Mondal	11.02.2004
4	Dr. Hari Singh	11.02.2004
5	Dr. G.C. Basu	11.02.2004
6	Sh. Devendra Pradhan	18.02.2004
7	Dr. V. Rajeswara Rao	10.02.2004 (A.N.)
8	Sh. S.K. Jain	11.02.2004
9	Sh. S.C. Bhan	11.02.2004
10	Sh. G.K. Mohanty	11.03.2004
11	Sh. G.C. Debnath	11.02.2004

1	2	3
12.	Sh. J.P. Gupta	11.02.2004
13.	Sh. B.P. Yadav	11.02.2004
14.	Sh. Jayanta Sarkar	11.02.2004
15.	Dr. Nabansu Chattopadhyay	11.02.2004
16.	Sh. K. Santhosh	23.02.2004
17.	Sh. Soumendu Sengupta	11.02.2004
18.	Sh. A.K. Srivastava	11.02.2004
19.	Dr. Pulak Guhathakurta	11.02.2004
20.	Sh. Somenath Dutta	11.02.2004
21.	Dr. Sanjib Bandyopadhyay	11.02.2004
22.	Sh. M. Mohapatra	23.02.2004
23.	Dr. (Mrs.) Madhvi Khole Vinayak	11.02.2004
24.	Dr. R.K. Jenamani	11.02.2004
25.	Dr. Anupam Kashyapi	11.02.2004
26.	Ms. Ranju Madan	11.02.2004
27.	Sh. K.C. Sai Krishnan	11.02.2004
28.	Sh. K.S. Hosahlikar	26.02.2004
29.	Dr. D.S. Pai	11.02.2004
30.	Sh. Y.K. Reddy	16.02.2004
31.	Sh. Devendra Singh	10.02.2004 (A/N)
32.	Sh. S. Balachandran	11.02.2004
33.	Sh. G. Suresh	11.02.2004
34.	Sh. K.N. Mohan	11.02.2004
35.	Sh. Manik Chandra	11.02.2004

**A.J. KURIAN**

Dy. Director General of Meteorology  
(Admin. & Stores)

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 11th May 2004

Ref: PD/12/(2)/2003-R-III/637—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Kamalakhar Krishna Dange, Upper Division Clerk, B.A.R.C. as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 29.03.2004 (FN) to 30.04.2003 (AN).

**K.C. DIVAKARAN**

Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai 400001, the 30th April 2004

No. 21/9(1)2002-CCS/16—The President is pleased to appoint Smt. K.P. Saraswathy, Senior Accounts officer (Scale

of pay Rs. 8000-13500), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Centre on ad-hoc basis for the period from 06.10.2003 (FN) to 07.11.2003 (AN).

**SOBHA DEVI N.**  
Under Secy.

Mumbri 400001, the 30th April 2004

No. 18/1(2)/2004-ER/1781—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Scientific Officer (C) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the dates mentioned against each candidate until further orders:

S.No.	Name of the Officer	Date of Appointment	Scale of pay
1	Shri M. Senthil Kumar	29.03.2004 (FN)	Rs. 8000-275-13,500
2	Kum Arti R. Kulkarni	31.03.2004(FN)	-do-
3	Kum Dipali Chaudhary	31.03.2004(FN)	-do-
4	Shri Pravin J. Patil	01.04.2004(FN)	-do-

**D. SURENDRAN**  
Under Secy.

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai 400094, the 06th May 2004

Ref: DPS/07011/Rectt./1822—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri G.K. Keluskar, Purchase Assistant as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 28.04.2004(FN) until further orders.

**T. KISHAN**  
Administrative Officer-III

#### (HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400094, the 12th May 2004

Ref: HWB/R/26(2)/2004/352—The President is pleased to appoint the following Group 'A' Officers of Heavy Water Plants, Department of Atomic Energy, Mumbai in a substantive capacity with effect from the date shown below:

Sl. No.	Name & Grade	Present Grade	Unit	Grade in which appointed substantively	Date of substantive appointment
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
01.	Prudhvi Munishankar	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
02.	Thatavarthy Ravi Kumar	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
03.	Yarra Gandhi	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003

Ref: DPS/07011/Rectt./1823—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri B.R. Walke, Purchase Assistant as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 28.04.2004 (FN) until further orders.

**T. KISHAN**  
Admn. Officer-III

Ref: DPS/07011/Rectt./1824—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Mahanada P. Suryavanshi, Purchase Assistant as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 28.04.2004 (FN) until further orders.

**T. KISHAN**  
Admn. Officer-III

Ref: DPS/07011/Rectt./1825—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. P.P. Rode, Purchase Assistant as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis in a temporary capacity in the same Directorate w.e.f. 28.04.2004 (FN) until further orders.

**T. KISHAN**  
Administrative Officer-III

Ref: DPS/07019/Rectt./1826—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri R.M. Bhinge, Senior Storekeeper as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in a temporary capacity in the same Directorate with effect from 28.04.2004 (FN) until further orders.

**T. KISHAN**  
Administrative Officer-III

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
04.	Bhaskaran Sudhir	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
05.	Mayank Gupta	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
06.	Surendra Pratap	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
07.	Rohit Deshmukh	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
08.	Santosh Wagmode	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
09.	Sarvaji Kumar	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
10.	Amit Tewari	SO/C	Manuguru	SO/C	01.10.2003
11.	Kurakula Bhoomanna	SO/C	Tuticorin	SO/C	01.10.2003
12.	Puran Mal	SO/C	Tuticorin	SO/C	01.10.2003
13.	Dr. Milind M. Lankeshwar	SO/C	Baroda	SO/C	01.10.2003
14.	Karumuri Kiran Baba	SO/C	Baroda	SO/C	01.10.2003
15.	Monu R. Mishra	SO/C	Baroda	SO/C	01.10.2003
16.	Mausumi Bhattacharya	SO/C	Baroda	SO/C	01.10.2003
17.	Rahbar Hussain	SO/C	Kota	SO/C	01.10.2003

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500062, the 11th May 2004

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-0293/261—On attaining the age of superannuation, Shri G. Subba Raju, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.04.2004 (AN).

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-1381/261—On attaining the age of superannuation, Shri V.P. Padmanabhan, Scientific Officer 'C' (Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.04.2004 (AN).

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

(INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH)

Kalpakkam-603102, the 11th May 2004

No. IGCAR/A-11013/1/2003-R/182—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific Officer of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2002 :—

Sl. No.	Name	Designation
01.	Shri Ashish Jain	Scientific Officer 'C'
02.	Shri Pallab Chaudhury	Scientific Officer 'C'
03.	Kum. Shanthi M. M.	Scientific Officer 'C'

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-4992/261—On attaining the age of superannuation, Shri P. O. Karunakaran, Dy. Chief Executive (Adm.), (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.04.2004 (AN).

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

No. IGCAR/A-11013/1/2003-R/183—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'A' Scientific



Officers of this Centre, in a substantive capacity with effect from October 1, 2003 :—

Sl. No.	Name	Designation
01.	Sh. Reuben Daniel J. W.	Scientific Officer/C
02.	Kum. Radha E.	Scientific Officer/C
03.	Kum. Annalakshmi O.	Scientific Officer/C
04.	Sh. Sanjaykumar N.R.	Scientific Officer/C
05.	Kum. Poonguzhali A.	Scientific Officer/C
06.	Smt. Preetha R.	Scientific Officer/C
07.	Sh. Venkatachalapathy V.	Scientific Officer/C
08.	Sh. Mahesh Kumar Patankar	Scientific Officer/C
09.	Sh. Sujoy Sen	Scientific Officer/C
10.	Sh. Bagavath Singh A.	Scientific Officer/C
11.	Sh. Kishore G.V.S.S.R.	Scientific Officer/C
12.	Dr. Sundaravel B.	Scientific Officer/D
13.	Dr. Venkata Srinivas C.	Scientific Officer/D
14.	Kum. Menaka M.	Scientific Officer/C
15.	Sh. Hemanath M. G.	Scientific Officer/C
16.	Kum. Binu T.V.	Scientific Officer/C
17.	Sh. Sujish D.	Scientific Officer/C
18.	Shri Ramdasu D.	Scientific Officer/C
19.	Sh. Vishal D. Pauniker	Scientific Officer/C
20.	Shri Amit Srivastava	Scientific Officer/C
21.	Sh. Govind Kumar Mishra	Scientific Officer/C
22.	Sh. Laxman D.	Scientific Officer/C
23.	Sh. Sudhir T. Ninawe	Scientific Officer/C
24.	Sh. Anandaraj M.	Scientific Officer/C
25.	Shri Sivakumar L. S.	Scientific Officer/C
26.	Sh. Indranil Banerjee	Scientific Officer/C
27.	Sh. Govind Kumar Sharma	Scientific Officer/C
28.	Sh. Sathya Prakash Pathak	Scientific Officer/C
29.	Sh. Nilayendra Chakraborty	Scientific Officer/C
30.	Sh. Rajhans Makrand Bhaskar Rao	Scientific Officer/C
31.	Sh. Ramanathan N.	Scientific Officer/C
32.	Smt. Saritha G. S.	Scientific Officer/C
33.	Sh. Bhuwan Chandra Sati	Scientific Officer/C
34.	Sh. Rakesh Kumar Mourya	Scientific Officer/C
35.	Sh. Faizan Ulla Khan	Scientific Officer/C
36.	Sh. Goutam Kumar Guin	Scientific Officer/C
37.	Sh. Harish Chandra Dey	Scientific Officer/C

K. ABRAHAM  
Chief Administrative Officer

## DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 19th April 2004

No. A-12025/3/98-E.I (Vol. IV).—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Bajpai in the post of Airworthiness Officer in Civil Aviation Department in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 27th February 2004, and until further orders.

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Administration  
for Director General of Civil Aviation

The 21st April 2004

No. A-32013/4/2003-E.I.—The President is pleased to promote and appoint Shri S. D. Upredi, as Senior Scientific Officer in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the Civil Aviation Department on regular basis with effect from 15th April, 2004 (Forenoon).

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Administration  
for Director General of Civil Aviation

The 22nd April 2004

No. A-12025/3/98-E.I (Vol. IV).—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Saleem Pasha in the post of Airworthiness Officer in Civil Aviation Department in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 12th April 2004, and until further orders.

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Administration  
for Director General of Civil Aviation

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. HI Hotels India Pvt. Limited

New Delhi-110003, the 27th April 2004

No. 560/55-52063/OG2/445/1262.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. HI Hotels India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vamda Securities Limited

Jalandhar, the 05th April 2004

No. ROC/560 (3)/18191.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Vamda Securities Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Citizens Chartered Benefit Fund Limited

Chennai-600006, the 12th May 2004

No. DN/42658/560 (3)/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Citizens Chartered Benefit Fund Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vam Enterprises Private Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. DN/22662/S.560/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vam Enterprises (P) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neet Financial Services (P) Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. DN/24576/S.560/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neet Financial Services (P) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. OMM Sakthi Stock & Shares Private Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. 39008/560 (5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. OMM Sakthi Stock & Shares Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Venugopalaswamy Consultancy Private Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. 42336/560 (5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Venugopalaswamy Consultancy Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Injin Internet Services Private Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. 42746/560 (5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Injin Internet Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004